

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 613

दिनांक 20/06/2024

विषय: आई एस 613: 2000 विद्युत अनुप्रयोग के लिए ताँबे की बार एवं छड़ों का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल।

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) आई एस 613: 2000 का अनुमोदित संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: “Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Information→ Product Manual” के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) उत्पाद मैनुअल को ऑक्सीजन (रासायनिक संरचना) की आवश्यकता के लिए समूह दिशानिर्देशों और नियंत्रण के स्तर में बदलाव के साथ संशोधित किया गया है।
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं लाईसेंसधारियों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(शिवम आहूजा)
वैज्ञानिक-सी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 613

Dated: 20/06/2024

Subject: Revised Product Manual for Copper Rods and Bars for Electrical Purposes according to IS 613: 2000

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for IS 613: 2000 has been hosted on the BIS website under “Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Information→ Product Manual”.
3. The Product Manual has been revised with changes in the Grouping Guidelines and the Levels of Control for the requirement of Oxygen (Chemical Composition).
4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all applicants and licensees within 7 days.

(Shivam Ahuja)
Scientist-C

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet